

एनईआर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For NER

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1844 | 1921 | 1837 | 7 | 83 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1811 | 1886 | 1813 | 2 | 73 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1777 | 1851 | 1779 | 2 | 72 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1755 | 1828 | 1753 | 2 | 75 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1731 | 1727 | 1729 | 3 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1718 | 1714 | 1703 | 15 | 10 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1702 | 1698 | 1694 | 7 | 3 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1694 | 1690 | 1687 | 7 | 3 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1691 | 1687 | 1693 | 3 | 7 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1698 | 1693 | 1711 | 13 | 17 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1722 | 1718 | 1703 | 19 | 14 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1743 | 1739 | 1715 | 28 | 23 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1760 | 1756 | 1735 | 25 | 21 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1762 | 1757 | 1741 | 21 | 16 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1747 | 1743 | 1711 | 36 | 32 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1726 | 1722 | 1689 | 37 | 33 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1710 | 1706 | 1676 | 34 | 30 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1701 | 1697 | 1666 | 35 | 30 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1697 | 1693 | 1660 | 37 | 33 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1697 | 1693 | 1647 | 51 | 47 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1719 | 1714 | 1666 | 52 | 48 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1753 | 1748 | 1714 | 39 | 34 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1807 | 1803 | 1787 | 20 | 15 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1887 | 1882 | 1859 | 28 | 23 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1988 | 1983 | 1941 | 47 | 43 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 2084 | 2079 | 2029 | 55 | 50 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 2185 | 2179 | 2104 | 80 | 75 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 2259 | 2253 | 2159 | 100 | 94 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 2319 | 2313 | 2221 | 98 | 92 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 2356 | 2350 | 2223 | 133 | 127 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 2380 | 2374 | 2289 | 91 | 85 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 2383 | 2377 | 2333 | 50 | 44 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 2371 | 2273 | 2327 | 45 | 53 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 2359 | 2261 | 2328 | 31 | 67 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 2343 | 2246 | 2321 | 22 | 75 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 2329 | 2232 | 2307 | 21 | 75 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 2314 | 2218 | 2262 | 52 | 44 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 2295 | 2200 | 2274 | 21 | 74 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 2271 | 2177 | 2258 | 12 | 82 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 2246 | 2153 | 2256 | 10 | 103 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 2222 | 2201 | 2233 | 11 | 32 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 2189 | 2168 | 2204 | 16 | 37 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 2165 | 2144 | 2199 | 34 | 55 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 2150 | 2129 | 2198 | 49 | 69 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 2140 | 2119 | 2193 | 53 | 74 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 2135 | 2114 | 2190 | 55 | 76 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 2132 | 2111 | 2217 | 85 | 106 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 2130 | 2110 | 2225 | 94 | 115 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 2135 | 2194 | 2205 | 70 | 11 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 2140 | 2199 | 2186 | 46 | 13 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 2147 | 2206 | 2189 | 42 | 17 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 2146 | 2204 | 2196 | 51 | 8 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 2141 | 2200 | 2199 | 58 | 1 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 2139 | 2198 | 2178 | 39 | 20 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 2138 | 2197 | 2195 | 56 | 2 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 2135 | 2193 | 2175 | 40 | 18 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 2141 | 2199 | 2190 | 49 | 10 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 2150 | 2209 | 2199 | 49 | 10 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 2168 | 2228 | 2189 | 21 | 39 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 2182 | 2242 | 2217 | 35 | 24 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 2202 | 2262 | 2265 | 63 | 3 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 2232 | 2293 | 2321 | 89 | 28 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 2276 | 2338 | 2350 | 74 | 12 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 2331 | 2395 | 2382 | 50 | 14 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 2390 | 2455 | 2408 | 19 | 47 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 2445 | 2512 | 2446 | 2 | 65 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 2510 | 2579 | 2449 | 61 | 130 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 2577 | 2648 | 2456 | 121 | 192 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 2647 | 2693 | 2516 | 130 | 177 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 2707 | 2755 | 2621 | 86 | 134 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 2774 | 2823 | 2707 | 67 | 116 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 2819 | 2869 | 2792 | 27 | 77 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 2848 | 2851 | 2833 | 15 | 19 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 2835 | 2839 | 2800 | 35 | 39 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 2810 | 2813 | 2768 | 41 | 45 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 2784 | 2787 | 2720 | 64 | 68 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 2759 | 2763 | 2689 | 70 | 73 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 2737 | 2741 | 2635 | 103 | 106 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 2720 | 2723 | 2664 | 56 | 59 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 2701 | 2704 | 2621 | 80 | 84 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 2681 | 2685 | 2572 | 109 | 112 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 2655 | 2659 | 2554 | 101 | 104 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 2624 | 2628 | 2525 | 99 | 103 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 2591 | 2594 | 2477 | 114 | 117 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 2545 | 2519 | 2423 | 122 | 96 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 2490 | 2465 | 2359 | 130 | 105 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 2426 | 2401 | 2268 | 158 | 133 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 2357 | 2334 | 2202 | 155 | 132 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 2296 | 2240 | 2147 | 149 | 93 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 2239 | 2109 | 2055 | 184 | 54 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 2182 | 2056 | 1972 | 210 | 84 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 2130 | 2007 | 1913 | 218 | 94 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 2072 | 1861 | 1848 | 224 | 13 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 2012 | 1807 | 1800 | 212 | 7 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1958 | 1758 | 1752 | 206 | 6 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|-----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1912 | 1717 | 1690 | 221 | 27 |
|----|---------------|------|------|------|-----|----|

अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Arunachal Pradesh

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 118 | 119 | 114 | 4 | 4 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 117 | 118 | 115 | 3 | 3 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 116 | 116 | 111 | 5 | 5 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 115 | 115 | 109 | 5 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 114 | 114 | 108 | 5 | 6 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 114 | 114 | 106 | 8 | 9 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 112 | 112 | 105 | 7 | 7 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 110 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 109 | 108 | 109 | 0 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 109 | 107 | 108 | 1 | 0 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 110 | 109 | 104 | 6 | 5 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 111 | 109 | 101 | 10 | 8 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 112 | 111 | 105 | 7 | 6 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 113 | 112 | 104 | 10 | 8 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 114 | 113 | 106 | 8 | 7 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 116 | 115 | 106 | 10 | 9 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 116 | 112 | 105 | 11 | 7 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 117 | 113 | 107 | 10 | 6 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 116 | 113 | 108 | 8 | 4 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 116 | 112 | 108 | 8 | 4 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 117 | 111 | 106 | 11 | 5 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 117 | 111 | 108 | 9 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 122 | 116 | 108 | 14 | 7 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 126 | 120 | 112 | 14 | 8 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 133 | 126 | 122 | 11 | 4 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 137 | 130 | 123 | 14 | 7 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 140 | 133 | 132 | 8 | 1 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 144 | 137 | 138 | 7 | 0 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 148 | 141 | 141 | 7 | 0 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 153 | 146 | 139 | 14 | 7 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 155 | 148 | 144 | 11 | 3 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 155 | 148 | 146 | 9 | 2 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 153 | 146 | 144 | 9 | 2 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 152 | 144 | 146 | 6 | 2 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 150 | 142 | 146 | 3 | 4 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 148 | 141 | 142 | 6 | 2 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 144 | 137 | 141 | 4 | 4 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 142 | 135 | 146 | 3 | 10 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 140 | 133 | 145 | 5 | 12 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 138 | 131 | 139 | 2 | 8 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 136 | 129 | 139 | 3 | 10 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 137 | 130 | 141 | 4 | 11 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 140 | 133 | 142 | 2 | 9 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 138 | 131 | 142 | 4 | 11 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 135 | 132 | 142 | 7 | 11 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 131 | 127 | 139 | 8 | 12 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 131 | 127 | 144 | 12 | 16 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 131 | 128 | 144 | 13 | 17 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 131 | 131 | 143 | 11 | 12 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 131 | 130 | 143 | 12 | 12 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 129 | 129 | 140 | 11 | 12 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 127 | 126 | 134 | 7 | 8 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 127 | 130 | 135 | 8 | 5 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 128 | 131 | 136 | 8 | 5 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 129 | 132 | 137 | 8 | 5 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 128 | 132 | 138 | 9 | 6 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 128 | 131 | 140 | 12 | 9 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 126 | 129 | 133 | 7 | 4 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 125 | 128 | 142 | 17 | 14 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 123 | 126 | 143 | 19 | 16 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 123 | 128 | 144 | 21 | 16 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 123 | 129 | 147 | 24 | 19 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 125 | 131 | 144 | 18 | 13 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 128 | 134 | 145 | 16 | 11 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 132 | 142 | 149 | 17 | 7 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 137 | 148 | 151 | 14 | 4 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 142 | 153 | 153 | 11 | 0 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 148 | 159 | 156 | 8 | 3 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 152 | 164 | 163 | 10 | 1 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 157 | 169 | 163 | 7 | 5 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 160 | 172 | 167 | 7 | 5 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 163 | 175 | 176 | 13 | 1 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 165 | 177 | 177 | 12 | 0 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 166 | 179 | 178 | 12 | 1 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 167 | 180 | 173 | 6 | 7 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 168 | 180 | 170 | 2 | 11 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 167 | 180 | 173 | 5 | 7 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 167 | 179 | 175 | 8 | 5 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 165 | 178 | 178 | 13 | 0 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 164 | 176 | 177 | 13 | 1 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 162 | 175 | 174 | 11 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 161 | 174 | 170 | 9 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 160 | 172 | 169 | 9 | 3 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 158 | 170 | 167 | 9 | 3 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 155 | 166 | 162 | 7 | 5 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 151 | 163 | 153 | 2 | 9 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 147 | 158 | 142 | 5 | 16 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 143 | 154 | 137 | 6 | 17 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 139 | 147 | 130 | 9 | 16 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 135 | 142 | 124 | 11 | 18 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 130 | 138 | 120 | 10 | 17 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 126 | 133 | 114 | 12 | 20 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 122 | 124 | 110 | 12 | 14 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 118 | 120 | 110 | 9 | 10 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 115 | 116 | 111 | 3 | 5 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 111 | 112 | 111 | 0 | 1 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|

**असम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Assam**

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1082 | 1128 | 1077 | 5 | 51 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1060 | 1106 | 1066 | 6 | 40 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1040 | 1085 | 1046 | 7 | 38 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1026 | 1071 | 1023 | 3 | 48 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1014 | 1013 | 1008 | 5 | 5 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1006 | 1006 | 992 | 14 | 13 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 998 | 998 | 987 | 11 | 11 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 993 | 993 | 982 | 11 | 11 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 994 | 993 | 997 | 3 | 4 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1006 | 1006 | 1010 | 4 | 4 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1027 | 1027 | 1013 | 15 | 14 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1047 | 1047 | 1026 | 21 | 20 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1059 | 1058 | 1039 | 20 | 20 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1055 | 1054 | 1039 | 16 | 15 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1040 | 1039 | 1011 | 29 | 28 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1018 | 1018 | 990 | 28 | 27 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1001 | 1001 | 975 | 27 | 26 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 989 | 988 | 966 | 23 | 22 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 979 | 979 | 951 | 28 | 28 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 969 | 968 | 932 | 37 | 37 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 967 | 966 | 932 | 35 | 34 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 972 | 972 | 934 | 38 | 38 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 997 | 996 | 951 | 46 | 46 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1033 | 1032 | 974 | 59 | 59 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1077 | 1076 | 1022 | 55 | 55 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1117 | 1116 | 1076 | 41 | 41 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1163 | 1163 | 1120 | 43 | 42 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 1205 | 1204 | 1155 | 50 | 49 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 1243 | 1184 | 1205 | 38 | 21 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 1262 | 1203 | 1195 | 67 | 8 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 1276 | 1216 | 1256 | 21 | 39 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 1283 | 1223 | 1291 | 7 | 68 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 1289 | 1266 | 1299 | 11 | 33 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 1288 | 1266 | 1310 | 22 | 44 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 1286 | 1264 | 1321 | 35 | 57 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 1289 | 1267 | 1325 | 36 | 58 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 1298 | 1325 | 1307 | 9 | 17 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 1299 | 1325 | 1330 | 32 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 1294 | 1321 | 1336 | 42 | 15 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 1282 | 1308 | 1339 | 57 | 31 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 1272 | 1298 | 1340 | 68 | 42 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 1260 | 1286 | 1327 | 67 | 41 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1250 | 1276 | 1313 | 62 | 37 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1250 | 1276 | 1311 | 61 | 35 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1252 | 1277 | 1297 | 46 | 20 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1254 | 1279 | 1295 | 41 | 15 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1257 | 1283 | 1318 | 61 | 36 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1260 | 1286 | 1322 | 62 | 36 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 1265 | 1290 | 1302 | 37 | 11 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1268 | 1293 | 1279 | 12 | 14 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1271 | 1297 | 1287 | 15 | 11 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1271 | 1297 | 1299 | 27 | 2 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1267 | 1293 | 1293 | 26 | 0 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1258 | 1284 | 1281 | 23 | 3 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1251 | 1276 | 1286 | 35 | 9 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1243 | 1268 | 1267 | 23 | 2 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1240 | 1265 | 1271 | 31 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1241 | 1267 | 1273 | 32 | 6 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1246 | 1272 | 1292 | 46 | 21 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1250 | 1276 | 1287 | 37 | 12 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 1255 | 1280 | 1286 | 31 | 6 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 1263 | 1289 | 1302 | 39 | 13 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 1279 | 1305 | 1313 | 34 | 7 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 1303 | 1329 | 1322 | 20 | 7 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 1331 | 1358 | 1331 | 0 | 27 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 1359 | 1387 | 1359 | 0 | 28 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 1394 | 1423 | 1368 | 26 | 55 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 1436 | 1465 | 1379 | 57 | 86 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 1486 | 1516 | 1401 | 85 | 115 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 1528 | 1559 | 1476 | 52 | 83 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 1572 | 1604 | 1529 | 43 | 75 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 1600 | 1633 | 1564 | 36 | 68 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 1614 | 1619 | 1575 | 39 | 45 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 1606 | 1611 | 1554 | 52 | 57 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 1594 | 1599 | 1532 | 62 | 67 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 1583 | 1589 | 1510 | 73 | 78 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 1576 | 1561 | 1490 | 86 | 71 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 1571 | 1556 | 1440 | 131 | 116 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 1563 | 1548 | 1473 | 90 | 75 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 1553 | 1538 | 1462 | 91 | 76 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 1539 | 1500 | 1456 | 83 | 44 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 1526 | 1487 | 1455 | 72 | 33 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 1512 | 1473 | 1430 | 82 | 43 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 1495 | 1457 | 1408 | 87 | 49 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 1472 | 1419 | 1385 | 87 | 33 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 1446 | 1394 | 1341 | 105 | 53 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 1415 | 1363 | 1273 | 142 | 91 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 1384 | 1334 | 1246 | 138 | 88 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 1352 | 1285 | 1232 | 120 | 53 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1327 | 1221 | 1182 | 145 | 40 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1302 | 1198 | 1136 | 166 | 62 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1275 | 1173 | 1096 | 179 | 77 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1240 | 1076 | 1052 | 188 | 24 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1202 | 1043 | 1022 | 179 | 20 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1167 | 1012 | 988 | 179 | 25 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1136 | 986 | 941 | 196 | 45 |
|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|

**माणिपुर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Manipur**

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 80 | 83 | 88 | 8 | 5 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 79 | 82 | 87 | 7 | 5 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 78 | 81 | 84 | 6 | 3 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 77 | 80 | 84 | 7 | 5 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 76 | 80 | 84 | 7 | 4 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 76 | 80 | 83 | 7 | 4 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 76 | 80 | 82 | 6 | 2 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 76 | 80 | 82 | 6 | 2 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 77 | 81 | 83 | 6 | 2 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 78 | 82 | 85 | 7 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 80 | 84 | 85 | 6 | 2 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 82 | 85 | 87 | 5 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 84 | 87 | 91 | 8 | 4 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 86 | 90 | 93 | 8 | 4 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 88 | 92 | 93 | 5 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 89 | 93 | 93 | 4 | 0 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 91 | 95 | 96 | 5 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 94 | 99 | 98 | 3 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 100 | 104 | 102 | 3 | 2 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 107 | 112 | 109 | 2 | 3 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 119 | 125 | 119 | 0 | 6 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 129 | 135 | 136 | 7 | 1 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 139 | 146 | 155 | 16 | 9 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 149 | 156 | 161 | 12 | 5 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 162 | 170 | 144 | 19 | 26 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 174 | 183 | 141 | 34 | 42 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 184 | 193 | 119 | 65 | 73 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 191 | 200 | 115 | 76 | 85 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 196 | 185 | 116 | 80 | 70 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 197 | 186 | 114 | 83 | 72 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 195 | 185 | 118 | 77 | 67 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 192 | 181 | 131 | 61 | 50 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 187 | 146 | 126 | 61 | 19 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 182 | 142 | 127 | 55 | 14 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 177 | 138 | 128 | 48 | 9 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 171 | 133 | 137 | 33 | 4 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 165 | 137 | 134 | 31 | 3 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 160 | 133 | 129 | 32 | 4 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 156 | 129 | 132 | 24 | 3 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 151 | 125 | 132 | 19 | 7 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 145 | 121 | 126 | 19 | 5 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 139 | 116 | 115 | 24 | 0 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 133 | 110 | 120 | 13 | 10 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 127 | 105 | 124 | 3 | 19 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 120 | 102 | 123 | 2 | 21 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 115 | 97 | 121 | 6 | 24 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 111 | 93 | 118 | 8 | 25 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 107 | 91 | 119 | 11 | 28 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 105 | 94 | 116 | 11 | 22 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 104 | 93 | 114 | 10 | 21 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 104 | 93 | 114 | 9 | 21 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 105 | 93 | 115 | 10 | 22 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 106 | 100 | 116 | 10 | 16 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 107 | 101 | 117 | 10 | 16 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 108 | 102 | 118 | 9 | 15 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 110 | 104 | 119 | 9 | 15 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 112 | 110 | 120 | 8 | 10 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 114 | 113 | 122 | 8 | 9 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 117 | 116 | 122 | 5 | 7 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 121 | 119 | 126 | 5 | 7 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 126 | 127 | 129 | 3 | 2 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 133 | 134 | 139 | 6 | 5 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 142 | 144 | 143 | 0 | 1 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 155 | 156 | 147 | 8 | 10 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 168 | 169 | 152 | 16 | 18 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 180 | 182 | 157 | 23 | 25 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 189 | 192 | 160 | 30 | 32 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 196 | 198 | 167 | 29 | 31 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 198 | 193 | 176 | 22 | 17 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 197 | 192 | 182 | 14 | 9 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 193 | 188 | 185 | 8 | 3 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 188 | 183 | 190 | 2 | 7 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 183 | 183 | 199 | 16 | 16 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 182 | 182 | 194 | 12 | 12 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 180 | 181 | 191 | 11 | 10 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 179 | 179 | 182 | 3 | 3 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 175 | 176 | 173 | 2 | 3 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 172 | 172 | 171 | 1 | 1 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 168 | 168 | 166 | 2 | 2 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 164 | 164 | 161 | 3 | 4 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 160 | 160 | 135 | 24 | 25 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 155 | 155 | 124 | 30 | 31 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 149 | 150 | 125 | 25 | 25 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 144 | 144 | 121 | 23 | 23 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 137 | 132 | 106 | 31 | 25 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 130 | 125 | 103 | 27 | 22 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 123 | 118 | 106 | 17 | 12 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 116 | 111 | 104 | 12 | 7 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 109 | 99 | 94 | 15 | 5 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 103 | 93 | 83 | 19 | 10 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 97 | 88 | 77 | 19 | 10 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 92 | 83 | 75 | 17 | 8 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 87 | 77 | 72 | 15 | 5 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 84 | 74 | 71 | 13 | 3 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 81 | 71 | 68 | 13 | 3 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 78 | 69 | 66 | 13 | 4 |

**मेघालय के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Meghalaya**

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 208 | 205 | 201 | 8 | 4 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 207 | 203 | 198 | 9 | 6 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 204 | 200 | 195 | 8 | 5 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 202 | 199 | 194 | 8 | 5 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 199 | 196 | 193 | 6 | 3 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 197 | 194 | 191 | 6 | 3 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 195 | 191 | 190 | 5 | 2 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 195 | 192 | 189 | 6 | 3 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 194 | 191 | 189 | 4 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 190 | 187 | 191 | 2 | 5 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 191 | 188 | 189 | 2 | 1 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 191 | 187 | 188 | 3 | 0 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 190 | 186 | 186 | 4 | 0 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 190 | 187 | 192 | 1 | 5 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 189 | 186 | 191 | 2 | 5 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 190 | 187 | 191 | 2 | 5 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 190 | 187 | 191 | 1 | 4 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 190 | 187 | 187 | 4 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 190 | 187 | 189 | 1 | 2 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 190 | 186 | 188 | 1 | 2 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 192 | 188 | 189 | 2 | 1 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 198 | 194 | 199 | 1 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 207 | 203 | 217 | 10 | 14 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 221 | 217 | 234 | 13 | 17 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 236 | 232 | 258 | 21 | 25 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 254 | 250 | 278 | 24 | 28 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 269 | 265 | 296 | 27 | 32 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 276 | 272 | 301 | 25 | 29 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 279 | 281 | 304 | 25 | 23 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 282 | 285 | 298 | 16 | 13 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 284 | 287 | 293 | 9 | 6 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 281 | 283 | 285 | 4 | 1 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 274 | 281 | 276 | 3 | 5 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 272 | 280 | 272 | 0 | 8 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 268 | 275 | 262 | 7 | 14 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 262 | 269 | 247 | 15 | 22 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 259 | 266 | 234 | 25 | 32 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 254 | 261 | 232 | 22 | 29 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 249 | 255 | 227 | 22 | 29 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 246 | 253 | 219 | 27 | 34 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 241 | 239 | 211 | 30 | 28 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 238 | 236 | 208 | 30 | 28 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 235 | 233 | 210 | 25 | 24 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 233 | 231 | 209 | 24 | 22 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 231 | 220 | 210 | 21 | 10 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 231 | 220 | 216 | 15 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 230 | 220 | 216 | 14 | 4 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 227 | 217 | 215 | 13 | 2 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 227 | 214 | 214 | 13 | 1 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 228 | 214 | 212 | 16 | 2 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 226 | 212 | 213 | 13 | 1 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 224 | 210 | 212 | 11 | 2 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 221 | 207 | 210 | 10 | 3 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 221 | 207 | 208 | 13 | 0 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 220 | 207 | 209 | 11 | 2 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 219 | 206 | 205 | 14 | 0 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 218 | 205 | 212 | 7 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 219 | 206 | 214 | 5 | 8 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 224 | 210 | 224 | 0 | 14 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 227 | 213 | 230 | 3 | 17 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 233 | 219 | 235 | 1 | 16 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 239 | 224 | 240 | 2 | 16 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 246 | 231 | 241 | 5 | 10 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 252 | 236 | 246 | 6 | 10 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 258 | 246 | 253 | 5 | 7 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 260 | 248 | 262 | 2 | 13 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 266 | 254 | 266 | 1 | 11 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 272 | 260 | 273 | 0 | 13 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 276 | 264 | 275 | 1 | 11 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 282 | 269 | 282 | 1 | 13 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 293 | 280 | 295 | 2 | 15 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 302 | 288 | 296 | 6 | 7 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 311 | 297 | 298 | 13 | 1 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 311 | 297 | 312 | 2 | 15 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 307 | 293 | 317 | 10 | 24 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 306 | 293 | 318 | 12 | 25 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 303 | 290 | 315 | 12 | 26 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 301 | 288 | 308 | 7 | 21 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 298 | 285 | 309 | 11 | 24 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 298 | 285 | 301 | 4 | 17 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 299 | 292 | 295 | 3 | 4 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 299 | 292 | 286 | 12 | 5 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 297 | 290 | 284 | 13 | 6 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 293 | 286 | 282 | 11 | 4 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 288 | 281 | 277 | 11 | 4 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 282 | 275 | 275 | 7 | 0 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 276 | 269 | 273 | 2 | 4 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 264 | 258 | 258 | 6 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 259 | 253 | 250 | 9 | 3 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 252 | 246 | 235 | 17 | 11 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 243 | 237 | 225 | 18 | 12 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 237 | 232 | 223 | 15 | 9 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 230 | 225 | 216 | 15 | 9 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 224 | 219 | 211 | 13 | 8 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 218 | 212 | 206 | 12 | 7 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 213 | 208 | 204 | 9 | 4 |

मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Mizoram

दिनांक /Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 57 | 57 | 59 | 2 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 56 | 56 | 58 | 2 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 54 | 54 | 56 | 1 | 1 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 53 | 53 | 55 | 1 | 1 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 52 | 52 | 53 | 0 | 0 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 50 | 50 | 49 | 1 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 49 | 49 | 48 | 1 | 1 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 47 | 47 | 46 | 1 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 47 | 47 | 46 | 1 | 1 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 47 | 47 | 46 | 1 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 48 | 48 | 47 | 0 | 0 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 49 | 49 | 49 | 1 | 1 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 52 | 52 | 50 | 2 | 2 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 56 | 56 | 54 | 2 | 2 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 62 | 62 | 61 | 1 | 1 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 69 | 69 | 67 | 2 | 2 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 74 | 74 | 73 | 2 | 2 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 96 | 96 | 95 | 1 | 1 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 97 | 97 | 97 | 1 | 1 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 97 | 97 | 99 | 2 | 2 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 97 | 97 | 99 | 2 | 2 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 97 | 97 | 98 | 1 | 1 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 96 | 96 | 95 | 1 | 1 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 94 | 94 | 91 | 3 | 3 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 92 | 92 | 91 | 1 | 1 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 85 | 85 | 88 | 3 | 3 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 80 | 80 | 86 | 5 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 77 | 77 | 67 | 10 | 10 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 78 | 78 | 81 | 3 | 3 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 80 | 81 | 82 | 2 | 1 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 78 | 80 | 84 | 5 | 4 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 75 | 77 | 83 | 7 | 6 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 71 | 72 | 84 | 13 | 12 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 68 | 71 | 86 | 17 | 15 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 67 | 70 | 81 | 14 | 11 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 66 | 69 | 79 | 13 | 11 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 66 | 68 | 78 | 13 | 10 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 66 | 71 | 75 | 9 | 4 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 67 | 72 | 79 | 12 | 7 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 68 | 74 | 78 | 10 | 5 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 70 | 75 | 74 | 4 | 2 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 71 | 75 | 80 | 9 | 5 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 72 | 76 | 76 | 4 | 0 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 73 | 77 | 77 | 4 | 0 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 74 | 78 | 81 | 6 | 2 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 76 | 80 | 84 | 8 | 4 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 77 | 82 | 88 | 11 | 7 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 80 | 84 | 88 | 9 | 4 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 82 | 87 | 88 | 6 | 1 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 86 | 84 | 87 | 1 | 3 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 91 | 88 | 104 | 14 | 16 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 95 | 92 | 106 | 11 | 14 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 100 | 97 | 111 | 11 | 14 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 105 | 112 | 113 | 8 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 111 | 117 | 116 | 5 | 2 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 115 | 122 | 118 | 3 | 4 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 119 | 126 | 103 | 15 | 23 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 120 | 124 | 116 | 5 | 9 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 121 | 125 | 123 | 3 | 1 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 120 | 124 | 129 | 9 | 5 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 119 | 123 | 134 | 15 | 11 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 116 | 123 | 135 | 19 | 12 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 113 | 120 | 131 | 18 | 11 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 111 | 117 | 129 | 18 | 11 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 109 | 115 | 125 | 16 | 10 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 108 | 117 | 123 | 15 | 6 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 107 | 116 | 121 | 14 | 5 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 106 | 115 | 119 | 13 | 4 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 107 | 116 | 116 | 9 | 0 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 107 | 116 | 112 | 5 | 4 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 106 | 115 | 112 | 5 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 105 | 113 | 109 | 4 | 5 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 103 | 111 | 106 | 3 | 5 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 100 | 108 | 104 | 4 | 4 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 97 | 105 | 100 | 4 | 4 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 93 | 100 | 96 | 3 | 5 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 88 | 95 | 93 | 4 | 3 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 84 | 91 | 84 | 1 | 8 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 81 | 88 | 79 | 2 | 9 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 78 | 84 | 75 | 3 | 9 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 75 | 81 | 72 | 3 | 9 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 73 | 77 | 68 | 4 | 8 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|----|
| 94 | 23:15 - 23:30 | 71 | 75 | 64 | 6 | 10 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 69 | 73 | 62 | 7 | 11 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 68 | 72 | 60 | 8 | 12 |

नागालैंड के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Nagaland

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 76 | 76 | 67 | 9 | 9 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 73 | 73 | 66 | 7 | 7 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 71 | 71 | 66 | 5 | 5 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 69 | 69 | 66 | 3 | 3 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 68 | 66 | 66 | 3 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 68 | 66 | 65 | 2 | 0 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 66 | 65 | 65 | 2 | 0 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 66 | 64 | 64 | 1 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 65 | 64 | 64 | 1 | 1 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 65 | 64 | 65 | 1 | 1 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 66 | 64 | 62 | 4 | 2 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 66 | 64 | 63 | 3 | 1 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 67 | 65 | 63 | 4 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 67 | 65 | 61 | 6 | 4 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 67 | 65 | 61 | 6 | 4 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 67 | 66 | 61 | 7 | 5 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 69 | 66 | 64 | 5 | 2 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 71 | 68 | 67 | 4 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 73 | 70 | 69 | 4 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 76 | 73 | 73 | 3 | 0 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 84 | 80 | 79 | 4 | 1 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 95 | 91 | 93 | 2 | 2 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 96 | 92 | 105 | 9 | 13 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 103 | 99 | 118 | 16 | 20 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 111 | 106 | 119 | 9 | 13 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 119 | 114 | 118 | 0 | 5 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 129 | 124 | 128 | 2 | 4 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 128 | 123 | 125 | 3 | 2 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 126 | 123 | 122 | 4 | 1 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 122 | 120 | 128 | 6 | 8 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 122 | 120 | 128 | 6 | 8 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 122 | 120 | 120 | 2 | 0 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 117 | 115 | 119 | 2 | 4 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 113 | 111 | 109 | 4 | 2 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 110 | 108 | 103 | 8 | 5 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 108 | 106 | 99 | 9 | 7 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 103 | 101 | 94 | 9 | 7 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 102 | 101 | 94 | 9 | 7 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 101 | 99 | 93 | 8 | 6 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 98 | 97 | 86 | 13 | 11 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 101 | 97 | 88 | 13 | 9 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 93 | 89 | 97 | 4 | 8 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 91 | 87 | 95 | 4 | 8 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 89 | 85 | 83 | 6 | 2 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 90 | 84 | 86 | 3 | 2 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 92 | 86 | 89 | 3 | 3 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 89 | 83 | 86 | 2 | 3 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 89 | 83 | 90 | 1 | 7 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 87 | 82 | 95 | 7 | 13 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 88 | 82 | 98 | 10 | 15 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 90 | 84 | 94 | 4 | 9 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 90 | 84 | 92 | 2 | 8 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 90 | 87 | 98 | 8 | 11 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 95 | 91 | 95 | 0 | 4 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 98 | 94 | 101 | 3 | 7 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 98 | 95 | 101 | 3 | 7 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 100 | 99 | 106 | 6 | 7 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 103 | 102 | 110 | 7 | 9 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 108 | 107 | 110 | 1 | 3 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 112 | 111 | 112 | 1 | 1 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 114 | 111 | 119 | 5 | 9 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 117 | 113 | 123 | 6 | 10 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 120 | 116 | 135 | 16 | 19 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 128 | 125 | 141 | 13 | 17 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 133 | 132 | 137 | 4 | 5 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 136 | 135 | 136 | 0 | 1 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 141 | 140 | 119 | 22 | 21 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 144 | 143 | 114 | 30 | 29 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 146 | 139 | 112 | 34 | 28 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 148 | 142 | 108 | 40 | 33 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 149 | 143 | 107 | 42 | 35 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 149 | 142 | 120 | 28 | 22 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 148 | 131 | 117 | 31 | 14 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 143 | 127 | 104 | 39 | 22 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 138 | 122 | 101 | 37 | 21 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 131 | 116 | 93 | 38 | 23 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 126 | 104 | 95 | 31 | 9 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 119 | 99 | 100 | 19 | 1 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 119 | 98 | 103 | 15 | 5 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 118 | 98 | 85 | 33 | 12 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 120 | 96 | 85 | 35 | 11 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 118 | 94 | 92 | 25 | 1 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 113 | 90 | 94 | 19 | 4 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 113 | 90 | 80 | 33 | 10 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 110 | 85 | 80 | 30 | 5 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 105 | 81 | 78 | 26 | 3 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 99 | 77 | 76 | 23 | 1 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 95 | 74 | 71 | 24 | 2 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 90 | 69 | 67 | 24 | 2 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 87 | 66 | 65 | 21 | 1 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 83 | 64 | 64 | 20 | 0 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 81 | 62 | 64 | 18 | 1 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 79 | 60 | 62 | 17 | 2 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 77 | 58 | 60 | 17 | 2 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|----|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 75 | 57 | 59 | 16 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 74 | 56 | 58 | 16 | 2 |

त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Tripura

दिनांक/Date: 3/12/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 222 | 239 | 231 | 9 | 8 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 219 | 235 | 225 | 6 | 10 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 215 | 231 | 221 | 6 | 10 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 212 | 227 | 221 | 9 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 208 | 223 | 217 | 9 | 6 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 205 | 221 | 214 | 9 | 7 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 203 | 218 | 214 | 11 | 4 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 202 | 217 | 208 | 6 | 9 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 201 | 216 | 202 | 1 | 14 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 200 | 215 | 204 | 4 | 11 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 199 | 214 | 203 | 3 | 11 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 199 | 214 | 202 | 3 | 12 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 202 | 213 | 204 | 2 | 9 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 203 | 215 | 205 | 2 | 10 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 202 | 214 | 202 | 0 | 12 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 198 | 210 | 201 | 2 | 9 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 196 | 204 | 199 | 4 | 4 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 192 | 201 | 196 | 4 | 4 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 191 | 199 | 193 | 2 | 6 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 190 | 198 | 189 | 1 | 9 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 189 | 196 | 190 | 2 | 6 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 186 | 194 | 191 | 5 | 3 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 184 | 192 | 191 | 7 | 1 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 187 | 195 | 194 | 7 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 194 | 202 | 204 | 9 | 1 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 203 | 212 | 214 | 10 | 2 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 213 | 222 | 223 | 10 | 1 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 222 | 231 | 234 | 12 | 2 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 232 | 242 | 239 | 7 | 3 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 242 | 252 | 250 | 9 | 2 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 250 | 260 | 251 | 1 | 9 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 253 | 263 | 261 | 8 | 2 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 254 | 265 | 263 | 8 | 2 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 255 | 266 | 268 | 12 | 2 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 258 | 268 | 270 | 12 | 1 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 259 | 269 | 266 | 7 | 3 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 259 | 270 | 264 | 5 | 6 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 256 | 267 | 258 | 1 | 9 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 254 | 265 | 259 | 5 | 6 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 253 | 263 | 260 | 8 | 3 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 248 | 258 | 247 | 1 | 11 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 244 | 254 | 233 | 10 | 20 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 240 | 250 | 237 | 4 | 14 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 242 | 252 | 245 | 3 | 7 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 243 | 253 | 248 | 5 | 5 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 245 | 255 | 249 | 4 | 6 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 247 | 258 | 255 | 8 | 3 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 250 | 260 | 256 | 7 | 4 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 253 | 263 | 260 | 7 | 4 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 255 | 266 | 261 | 6 | 5 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 258 | 269 | 263 | 5 | 6 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 260 | 270 | 270 | 10 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 259 | 270 | 267 | 8 | 3 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 258 | 268 | 265 | 8 | 3 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 259 | 269 | 267 | 8 | 3 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 262 | 273 | 265 | 3 | 8 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 267 | 278 | 258 | 9 | 20 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 269 | 280 | 259 | 10 | 21 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 268 | 279 | 259 | 9 | 20 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 266 | 277 | 258 | 8 | 19 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 265 | 271 | 265 | 0 | 6 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 267 | 273 | 266 | 2 | 8 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 268 | 274 | 269 | 0 | 6 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 265 | 272 | 270 | 4 | 2 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 263 | 269 | 259 | 4 | 10 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 262 | 268 | 265 | 4 | 2 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 262 | 268 | 266 | 4 | 2 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 263 | 269 | 265 | 2 | 5 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 268 | 274 | 274 | 7 | 0 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 275 | 281 | 285 | 10 | 4 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 286 | 293 | 294 | 8 | 1 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 299 | 306 | 312 | 13 | 6 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 310 | 318 | 332 | 21 | 14 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 314 | 322 | 326 | 12 | 5 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 312 | 320 | 326 | 13 | 6 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 307 | 314 | 321 | 14 | 7 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 303 | 310 | 320 | 16 | 9 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 300 | 307 | 320 | 20 | 13 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 300 | 307 | 316 | 15 | 8 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 297 | 304 | 318 | 21 | 14 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 294 | 301 | 315 | 21 | 14 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 290 | 297 | 314 | 24 | 17 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 288 | 295 | 315 | 27 | 20 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 286 | 292 | 313 | 28 | 21 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 283 | 294 | 308 | 25 | 14 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 279 | 290 | 308 | 29 | 18 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 273 | 284 | 302 | 29 | 18 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 268 | 278 | 294 | 26 | 16 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 262 | 277 | 290 | 28 | 13 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 255 | 270 | 287 | 32 | 17 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 249 | 263 | 275 | 26 | 11 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 244 | 258 | 269 | 25 | 11 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 241 | 258 | 268 | 28 | 10 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 237 | 254 | 262 | 25 | 8 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 234 | 251 | 259 | 25 | 8 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 232 | 249 | 252 | 20 | 3 |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|